

**\*@shahjahanpurpol\***

**\*प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 11/09/2022\***

**\*सर्विलांस सेल एवं थाना तिलहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,\***

**\*गौरक्षा सेवा दल में नौकरी दिलाने का झाँसा देकर धोखाधड़ी करके पैसे लेने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,\***

**\*01 एम्बुलेन्स गाड़ी बरामदा\***

श्री एस0 आनन्द पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे विभिन्न अभियानों के क्रम में श्री संजीव कुमार वाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं श्री वी0एस0 वीरबहादुर क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण तथा श्री वीरेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना तिलहर व श्री नीरज सिंह प्रभारी निरीक्षक सर्विलांस सेल के नेतृत्व में सर्विलांस सेल एवं थाना तिलहर की संयुक्त पुलिस टीम को गौरक्षा सेवा दल के नाम पर नौकरी देने का झाँसा देकर पैसे वसूलने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली।

इसी क्रम में दिनांक 11.09.22 को सर्विलांस सेल एवं थाना तिलहर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर **02 अभियुक्तों 1. राजपाल पुत्र भीमसिंह पाल निवासी खपरैल गौटिया थाना कोतवाली जिला पीलीभीत 02. आलोक कुमार पुत्र वीरेन्द्रपाल निवासी गनगोला थाना दातागंज जिला बदायूँ** समय करीब 14.47 बजे रेलवे रोड कस्बा तिलहर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण गौरक्षा सेवा दल में एम्बुलेन्स के फर्जी संचालन हेतु **गौरक्षा सेवा दल में नौकरी दिलाने का झाँसा देकर लोगों से धोखाधड़ी करके पैसे ले लेते हैं, जिनके कब्जे से 01 एम्बुलेन्स गाड़ी बरामद की गयी।** गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना तिलहर पर मु0अ0सं0 694/22 धारा 420 भादवि पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

\*उल्लेखनीय यह है कि गिरफ्तार अभियुक्तगण गौरक्षा सेवा दल एम्बुलेन्स के फर्जी संचालन हेतु दस्तावेज बुकलेट एवं नियमावली तैयार कर ग्राम पंचायत स्तर एवं ब्लाक स्तर पर गौरक्षा सेवा दल के नाम पर गौरक्षा शुल्क वसूल करते हैं तथा गौरक्षा सेवा दल के फर्जी मण्डल अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष बनकर लोगों से गौरक्षा दल में नौकरी देने का झाँसा देकर पैसे वसूल करते हैं।\*

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण -\***

1-राजपाल पुत्र भीमसिंह पाल निवासी खपरैल गौटिया थाना कोतवाली जिला पीलीभीत उम्र 24 वर्ष।

2-आलोक कुमार पुत्र वीरेन्द्रपाल निवासी गनगोला थाना दातागंज जिला बदायूँ उम्र 26 वर्ष।

**\*पंजीकृत अभियोग का विवरण -\***

मु0अ0सं0 694/22 धारा 420 भादवि थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर

**\*बरामदगी विवरण -\***

एक अदद एम्बुलेन्स गाड़ी बरामद।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -\***

प्र0नि0 वीरेन्द्र सिंह मय टीम थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर

निरीक्षक नीरज कुमार सर्विलांस टीम जनपद शाहजहाँपुर

उ0नि0 सुखपाल सिंह थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर

का0 791 संजीव कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर

का0 राजुल साइबर सेल साइबर जनपद शाहजहाँपुर

का0 विशाल सर्विलांस सेल जनपद शाहजहाँपुर

का0 शिवम साइबर सेल जनपद शाहजहाँपुर